



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::  
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan,

रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक / Date
	V2/160/RAJ/2017	DC/JAM/R-416/2016-17	06-02-2017

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

**RAJ-EXCUS-000-APP-082-2018-19**

आदेश का दिनांक /  
Date of Order: **14.05.2018** जारी करने की तारीख /  
Date of issue: **15.05.2018**

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /  
Passed by **Shri Kumar Santosh**, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellants & Respondent :-**

1. **Shri Vijay Infra Projects P. Ltd., Flat No. 401, Vraj Apartment, Saru Section Road, Opp : Police HQ., Jamnagar,**

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/  
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 360016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपए, 5,000/- रुपए अथवा 10,000/- रुपए का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है  
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम  
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि  
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम  
- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा।/  
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,  
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :  
(i) amount determined under Section 11 D;  
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;  
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules  
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :**  
**Revision application to Government of India:**  
इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामले में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:  
(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/  
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse  
(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /  
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.  
(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /  
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.  
(iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीख अथवा समयाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।/  
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.  
(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /  
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.  
(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।  
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।  
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.  
(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पट्टी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। /  
In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.  
(E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /  
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.  
(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /  
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.  
(G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in) को देख सकते हैं। /  
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website [www.cbec.gov.in](http://www.cbec.gov.in)

**:: ORDER-IN-APPEAL ::**

M/s. Vijay Infra Projects Pvt. Ltd., Varaj Apartment, Flat No. 401, Saru Section Road, Opp. Police Quarter, Jamnagar (hereinafter referred to as "appellant") filed appeal against Order-in-Original No. DC/JAM/R-416/2016-17 dated 06.02.2017 (hereinafter referred to as "impugned order") passed by the Deputy Commissioner, Central Excise, Jamnagar (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority").

2. The brief facts of the case are that the appellant, a service provider of construction services and works contract services to the Government authorities including Military Engineer Service (hereinafter referred to as "MES"), filed refund claim of Rs. 2,72,54,126/- in terms of Section 102 of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as "the Act"), inserted vide Finance Act, 2016, in respect of service tax paid by them during the period from 01.04.2015 to 29.02.2016. SCN was issued to the appellant proposing rejection of refund claim on the grounds narrated in the SCN. The lower adjudicating authority, inter-alia, rejected refund claim on the following grounds:

- (i) Entry No. 12A of Notification No. 9/2016-ST dated 01.03.2016 stipulates that the amendment shall come in to effect from 01.03.2016 and not retrospectively from 01.04.2015 to 29.02.2016 and hence, no refund claim arises at all;
- (ii) Appellant did not provide the required documents such as agreements, all final bills and other relevant documents to establish that the service tax was paid in respect of services provided to the Government authority and to decide eligibility of the refund claim;
- (iii) The appellant failed to provide proper quantification of the refund claimed and also failed to justify that the said amount was paid towards the services provided to the Government authority;
- (iv) The appellant did not provide any evidence regarding service tax paid was in respect to contract made prior to 01.03.2015;
- (v) The appellant provided taxable service and paid service tax under the category of works contract service, which is not falling within ambit of Section 102 of the Act;
- (vi) The appellant has taken and utilized cenvat credit but no reversal under Rule 6(3) of Cenvat Credit Rules, 2004 has been made by them and they have also not produced any separate calculation/work-sheet for the cenvat credit;
- (vii) Appellant charged service tax from the service receivers and thus it is not established that they have not passed on the incidence of service tax to the

service receiver or to any other person and thus, refund claim was hit by the bar of unjust enrichment.


3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant has filed appeal, *inter-alia*, on the ground that the impugned order has travelled beyond the scope of SCN; that Section 102 inserted in the Act by Finance Bill, 2016 is a self-contained code and there is no pre-condition of non-availment of cenvat credit or reversal of cenvat credit to claim refund; that appellant had taken cenvat credit and utilized for payment of service tax when the project was taxable; that denial of refund on this ground is unlawful, being outside the scheme of Section 102 of the Act and is also against the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the case of Ashok Iron & Steel Fabricators reported as 2003 (156) ELT A212 (SC) upholding the decision of Larger Bench of the Hon'ble CESTAT, New Delhi; that refund filed under Section 102 of the Act cannot be denied on this ground; that the lower adjudicating authority has noted at Para 7(iii) of the impugned order that the appellant had duly produced computation sheet giving complete information about contract, value of contract, amount of service tax paid etc. and hence, denial of refund on the ground of non-submission of such documents is not justified.

4. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Vikas Mehta, Consultant, who reiterated the Grounds of Appeal and submitted that though the incidence of service tax has been passed on but department has no authority to retain the amount; hence, the case should be remanded for further adjudication by the lower adjudicating authority; that documents should be produced to show that the service tax has been returned to the service provider

**Findings:**

5. I have carefully gone through the facts of the case, impugned order, appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the appellant. The issue to be decided is as to whether in the facts and circumstances of the case, the impugned order passed by the lower adjudicating authority rejecting refund claim filed by the appellant under Section 102 of the Finance Act, 2016 is correct or not.

6. The lower adjudicating authority has rejected refund claims on the ground of non-submission of the relevant documents, namely, copies of agreements/contracts, invoices, R.A. Bills, Final Bills etc. stating that the appellant submitted tender acceptance letters instead of relevant agreements/work contracts



awarded to them. I find that copies of agreements/contracts made between service provider and service receiver are important and vital document to decide refund claim as Section 102(1) grants retrospective exemption from payment of service tax on the services provided to the Government, Government authority or local government authority only if the contract was entered into on or before 01.03.2015. It is true that without the required documents, nature of work, category of services provided, date of agreement, whether value was/is inclusive or exclusive of service tax etc. cannot be ascertained and eligibility or otherwise of refund claim can not be decided. The lower adjudicating authority stated that the appellant failed to provide proper quantification of refund claimed and also failed to justify that the said amount was paid towards the services provided to the Government authority. I find that the appellant has not produced any evidence even in Appeal Memorandum establishing quantification of refund amount and justifying that the claimed amount was paid by them towards the services provided by them to the Government authority.

7. The lower adjudicating authority on the basis of ST-3 returns filed by the appellant, has stated that the appellant had taken and utilized cenvat credit towards payment of service tax but no reversal under Rule 6(3) of Cenvat Credit Rules, 2004 has been made by them. I find that appellant has not submitted copy of ST-3 returns with their appeal memorandum but contended that they were eligible for cenvat credit of input services as the cenvat credit had been taken and utilized by them when the output services were taxable and there is no need for reversal of cenvat credit in view of the decision of the Hon'ble CESTAT in the case of Ashok Iron & Steel Fabricators reported as 2002 (140) ELT 277 (Tri.-LB) duly affirmed by the Hon'ble Supreme Court reported as 2003 (156) ELT A 212 (SC). However, the facts of the present case are not similar to the facts of the case relied upon by the appellant. I am of the considered view that when the appellant has availed cenvat credit on the input services and not reversed by the appellant, then refund of service tax paid on output services would enrich the appellant in unjust manner.

8. I find that the lower adjudicating authority has held in the impugned order that the appellant has passed on the incidence of service tax to the service receiver i.e. MES and therefore, refund claim is hit by the bar of unjust enrichment. The appellant during appeal proceedings has also admitted that they have passed on the incidence of service tax to the service receiver and received full amount of service tax paid from MES. In such circumstances, I find that the appellant is not entitled for refund of service tax paid by the appellant on works

contract/construction service provided to MES in terms of Section 11B(2)(e) of the Central Excise Act, 1944, made applicable to the service tax matters under Section 83 of the Act.

9. I am, therefore, of the considered view that the appellant has failed to prove that the incidence of duty has not been passed on to any other person, which is essentially required for sanction of refund under Section 11B, read with Section 12B of the Central Excise Act, 1944 and made applicable to the service tax matters. Therefore, I find that the appeal filed by the appellant fails on doctrine of unjust enrichment also.

10. In view of above, I upheld the impugned order and reject the appeal filed by the appellant.

११. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई उपरोक्त अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

11. The appeal filed by the appellant is disposed off as above.

*(Signature)*  
13/05/2018

*(Signature)*  
14/5/2018  
(कुमार संतोष)  
आयुक्त (अपील्स)

By Regd. Post AD

To,

M/s. Vijay Infra Projects Pvt. Ltd.,  
Varaj Apartment, Flat No. 401,  
Saru Section Road,  
Opp. Police Quarter,  
Jamnagar.

मे. विजय इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. ली.,  
वरज अपार्टमेंट, फ्लॉट नं. ४०१, सरु सेक्शन रोड,  
पुलिस क्वार्टर के सामने,  
जामनगर.

Copy for information and necessary action to:

- 1) The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad for favour of kind information.
- 2) The Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate, Rajkot
- 3) The Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Division, Jamnagar.
- 4) Guard file.